



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1934 (श0)
(सं0 पटना 3) पटना, बुधवार, 2 जनवरी 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

5 सितम्बर 2012

सं0 22/नि0सि0(रिं0)—15—03/2009/964—श्री शशि भूषण पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, बरही सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता, जल निस्सरण प्रमण्डल, सहरसा जब जल पथ प्रमण्डल, बरही (झारखण्ड) में पदस्थापित थे तब उनके द्वारा पंचखेरों जलाशय योजना के एग्रोच चैनल में मिट्टी कटाई हेतु गलत प्राक्कलन तैयार किया गया। श्री पाण्डेय का कैडर विभाजन के उपरान्त बिहार राज्य कैडर आवंटित होने के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा उपरोक्त अनियमितता के लिए इन्हें प्रथम द्रष्टया दोषी पाकर संबंधित अभिलेखों की छाया प्रति जल संसाधन विभाग, बिहार को प्राप्त कराते हुए श्री पाण्डेय को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुशंसा की गई जो समीक्षाधीन था। इस बीच अधीक्षक लोक नायक जय प्रकाश नारायण केन्द्रीय कारागार हजारीबाग द्वारा सूचित किया गया कि श्री पाण्डेय दिनांक 20.3.12 से बरही थाना कांड सं0—07/10 जी0 आर0—42/10 में लोक नायक जय प्रकाश नारायण केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग में विचाराधीन बन्दी के रूप में संसीमित है। अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग के उक्त सूचना के उपरान्त संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा सूचित किया गया कि श्री पाण्डेय केन्द्रीय कारागार, हजारीबाग से जमानत पर रिहा होकर जल निस्सरण प्रमण्डल, सहरसा में दिनांक 17.5.12 को पदभार ग्रहण कर चुके हैं। प्राप्त सूचनाओं के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई समीक्षोपरान्त जेल अवधि दिनांक 20.3.12 से दिनांक 16.5.12 तक के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री शशि भूषण पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, बरही सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता, जल निस्सरण प्रमण्डल, सहरसा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम -9(2) एवं 9(3)(1) के तहत उनके जेल जाने की तिथि दिनांक 20.3.12 से जमानत पर जेल से मुक्त होने की तिथि दिनांक 16.5.12 तक की अवधि के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री पाण्डेय, कार्यपालक अभियन्ता को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दे होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

श्याम कुमार सिंह,

सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 3-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>